



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 आश्विन 1934 (श10)  
(सं0 पटना 553) पटना, शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2012

---

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

5 सितम्बर 2011

सं0 पर्या०/वन-42/02-419(ई०)/प०व०—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य सभा समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के अनुपालन के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले में एक "टास्क फोर्स" का गठन निम्नवत् किया जाता है:—

- |       |   |   |            |
|-------|---|---|------------|
| (i)   | जिला पदाधिकारी या उनके मनोनीत पदाधिकारी   | — | अध्यक्ष    |
| (ii)  | असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  | — | सदस्य      |
| (iii) | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित नगर निगम/नगरपालिका)  | — | सदस्य      |
| (iv)  | आरक्षी अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि  | — | सदस्य      |
| (v)   | जिला में पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत मान्यता प्राप्त एवं प्रसिद्ध दो गैर सरकारी संगठनों के, प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि | — | सदस्य      |
| (vi)  | बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी  | — | सदस्य सचिव |

2. टास्क फोर्स के कार्य दायित्व:—
- (i) सभी टास्क फोर्स जिले में इस नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को परामर्श प्रदान करेगी।
- (ii) टास्क फोर्स द्वारा अनुश्रवण प्रतिवेदन राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (विहित प्राधिकारी) को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगी जिसे वह राज्य सलाहकार समिति को समर्पित करेगी। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सलाहकार समिति नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
3. टास्क फोर्स की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर बुलाई जा सकेगी।
4. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रामावतार राम,  
सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 553-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>